



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 360 राँची, शुक्रवार,

6 अप्रैल, 2018 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

5 अप्रैल, 2018

संख्या-8/गठन/150/2017/न०वि०आ०/1956(अनु०) -- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (2) (स) धारा-4, 5, 6, धारा-8 की उपधारा-(3) तथा धारा-14(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से गिरिडीह जिलान्तर्गत धनवार अंचल क्षेत्र में 04 राजस्व ग्रामों को मिलाकर, उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-1414, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 विभागीय अधिसूचना सं०-7217, दिनांक 22 नवम्बर, 2017 द्वारा परिवर्तनीय (संक्रमणशील) शहरी क्षेत्र (धनवार नगर पंचायत) घोषित करने का 'प्रारूप आदेश' निर्गत किया गया। प्रारूप प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर आपत्ति एवं सुझावों पर विचार करते हुए उपायुक्त, गिरिडीह को निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-105/न०प०, दिनांक 21 जनवरी, 2018 के द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं०-7217, दिनांक 22 नवम्बर, 2017 के प्रारूप

प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर किसी तरह की आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। उपायुक्त, गिरिडीह ने उक्त पत्र द्वारा धनवार नगर पंचायत के गठन हेतु स्पष्ट अनुशंसा की है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (2) (स), धारा-4, 5, 6, धारा-8 एवं धारा-14(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ गिरिडीह जिलान्तर्गत धनवार अंचल क्षेत्र के चार राजस्व ग्रामों (राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न) को मिलाकर अधिसूचना निर्गत की तिथि से धनवार नगर पंचायत के रूप में घोषित करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

झारखण्ड सरकार**नगर विकास एवं आवास विभाग****धनवार नगर पंचायत का गठन**

उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-1160/न०प०, दिनांक 23 सितम्बर, 2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में गिरिडीह जिला अन्तर्गत धनवार नगर पंचायत में सम्मिलित होने वाले राजस्व ग्रामों की सूची निम्नवत है:-

पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	थाना संख्या	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि०मी०)
धनवार नगर पंचायत	धनवार	214	8777	3783
	मायाराम टोला	212	1094	1633
	उपरैली धनवार	213	4355	3599
	बुधवाडीह	211	1071	1127

धनवार नगर पंचायत एक झलक में :-

1.	धनवार नगर पंचायत की कुल जनसंख्या	15297 व्यक्ति
2.	जनसंख्या का घनत्व	2970.29 प्रति वर्ग कि०मी०
3.	धनवार नगर पंचायत का क्षेत्रफल	5.15 वर्ग कि०मी०

सरकार के अपर मुख्य सचिव,
नगर विकास एवं आवास
विभाग।
